

चीजों को अलग-अलग करना

14

खिचड़ी बनाने के लिए दाल, चावल, नमक, मिर्च वगैरह को मिलाते हैं। यानी खिचड़ी एक मिश्रण है। रोज अपन ऐसे कई मिश्रणों का उपयोग करते हैं। चाय, सब्जी, ईट, गारा सभी तो मिश्रण हैं। परंतु कभी-कभी हमें मिश्रण में से कोई चीज अलग भी करनी पड़ती है। जैसे बाजार से गेहूं या चावल लाएं तो उनमें कंकड़ मिले रहते हैं। इन कंकड़ों को बीनकर अलग करना पड़ता है।

हमें कैसे मालूम पड़ जाता है कि कंकड़ कौन-से हैं और गेहूं कौन-से? कंकड़ एकदम अलग दिखें तो फटाफट बीने जा सकते हैं। चावल में कई बार ऐसे कंकड़ मिले होते हैं जिनका रंग और आकार लगभग चावल जैसा होता है। तब हमें बीनने में ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। यदि गेहूं या चावल को ठीक से न बीना जाए, तो क्या होता है?

इसी प्रकार से रोज हम न जाने कितने पदार्थों को अलग-अलग करते हैं। पदार्थों को अलग-अलग करने के कितने तरीके हमें पता हैं? हर टोली को एक तरीके का नाम बताना है। यह भी बताना होगा



